

Basant Semester Examination 2025-26

Paper Code: GE7B064

Paper Title: Cost Accounting

No supplementary answer book will be provided

Max. Marks: 100

Time: 02 Hrs.

Part No.	Q. No.	Question in Hindi/ English
		(Attempt All Questions. Answer Every question 50 words) (10*4) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दें।)
1.	i.	Define Cost Accounting and state its objectives. लागत लेखांकन की परिभाषा दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
	ii.	Differentiate between Cost Accounting and Financial Accounting. लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
	iii.	Explain the Elements of Cost. लागत के तत्वों का वर्णन कीजिए।
	iv.	What is FIFO Method? प्रथम आगत प्रथम निर्गत (FIFO) विधि क्या है?
	v.	What are Material Losses? सामग्री हानि से क्या अभिप्राय है?
	vi.	What is Idle Time? निष्क्रिय समय क्या है?
	vii.	Define Labour Turnover. श्रमिक परिवर्तन दर को परिभाषित कीजिए।
	viii.	What are Overheads? अधिभार (Overheads) क्या हैं?
	ix.	What is Standard Costing? प्रमाणित लागत निर्धारण क्या है?
	x.	What is Reconciliation of Cost and Financial Accounts? लागत खातों एवं वित्तीय खातों के सामंजस्य से क्या अभिप्राय है?
		(Attempt All Questions. Answer Every question in 100 words) (5*6) (सभी प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 100 शब्दों में दें।)
2.	i.	Explain the Objectives and Advantages of Cost Accounting. लागत लेखांकन के उद्देश्यों एवं लाभों की व्याख्या कीजिए।
	ii.	Describe Various Material and Inventory Control Techniques. विभिन्न सामग्री एवं भंडार नियंत्रण तकनीकों का वर्णन कीजिए।
	iii.	Explain the Methods of Wage Payment and Incentive Schemes. मजदूरी भुगतान की विधियों एवं प्रोत्साहन योजनाओं का वर्णन कीजिए।
	iv.	Discuss the Classification and Absorption of Overheads. अधिभारों के वर्गीकरण एवं अवशोषण की व्याख्या कीजिए।

	v.	Explain Activity Based Costing and its Advantages. क्रियाकलाप आधारित लागत निर्धारण तथा उसके लाभों का वर्णन कीजिए।
(Attempt Any 2 Questions. Answer Every question in 300 words) (2*15) (किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर 300 शब्दों में दें।)		
3	i.	Explain Process Costing in detail. Discuss Process Losses, Work-in-Progress, Joint Products and By-products. प्रक्रिया लागत निर्धारण को विस्तार से समझाइए तथा प्रक्रिया हानि, प्रगति में कार्य, संयुक्त उत्पाद एवं उप-उत्पादों की चर्चा कीजिए।
	ii.	Explain Unit Costing, Job Costing, Contract Costing and Transport Costing with suitable examples. इकाई लागत, कार्यदिश लागत, संविदा लागत एवं परिवहन लागत का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
	iii.	Explain Integral and Non-Integral Systems of Cost Accounting and discuss the need for Reconciliation. लागत लेखांकन की समाकलित एवं असमाकलित प्रणालियों की व्याख्या कीजिए तथा सामंजस्य की आवश्यकता बताइए।